

**अहर्ताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची/मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के
अभाव में वचन-पत्र**

प्रति,

कुलसचिव

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

विषय: अहर्ताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे आपके विश्वविद्यालय में

..... पाठ्यक्रम के सेमेस्टर में

विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न साक्षात्कार /काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटित की गई है।

1. मेरा अंतिम वर्ष, सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है।
2. प्रवेश हेतु इंटरनेट से प्राप्त अंक सूची संलग्न कर रहा/रही हूँ।
3. मैं वचन देता/देती हूँ कि दिनांक 31 जुलाई 2018 तक अपनी अंक सूची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दूँगा/ दूँगी।
4. आज दिनांक तक प्रवेश हेतु आवश्यक मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। मैं वचन देता/देती हूँ कि दिनांक 31 जुलाई 2018 तक अपनी अंक सूची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

उक्त तिथि तक अंक सूची, मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त किये जाने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

दिनांक:

भवदीय

नाम:

पिता/पति का नाम:

पता:

दूरभाष, मोबाईल नं.

आवेदक की घोषणाएँ

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि:

- मैं विश्वविद्यालय के समस्त नियमों, निर्देशों, सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन करूँगा/करूँगी।
- विश्वविद्यालय के नियम, अनुशासन व व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध रहूँगा/रहूँगी। अपना व्यवहार संयत, शालीन एवं विनम्र रखते हुए प्रत्येक प्रकरण में विश्वविद्यालय के निर्णयों का पालन करूँगा/करूँगी।
- ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जिससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं निहित उद्देश्यों का अहित हो।
- कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, मुझे सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- मैं घोषणा करता/करती हूँ कि, मैं पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान कोई नौकरी, रोजगार, व्यवसाय नहीं करूँगा/करूँगी। मैं पाठ्यक्रम अवधि में नियमित अध्ययन कार्य करूँगा/ करूँगी। यदि पाठ्यक्रम के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मैं नौकरी, रोजगार, व्यवसाय कर रहा/रही हूँ तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- मैं किसी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी।
- मैं विश्वविद्यालय में आगमन एवं प्रस्थान के लिए दो-पहिया वाहन एवं चार-पहिया वाहन का उपयोग करते समय हेलमेट लगाने एवं सीट बेल्ट बांधने के नियम का पालन करूँगा/करूँगी।
- मैं विश्वविद्यालय की किसी भी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं करूँगा/करूँगी अपितु किसी समस्या की स्थिति में विश्वविद्यालय, विभाग के अधिकारियों के सहयोग से उस दूर करूँगा/करूँगी।
- मेरे विरुद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता, दुराचार, रैगिंग, नकल प्रकरण, आपराधिक कृत्य के विरुद्ध कोई न्यायालयीन, विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। यदि हाँ तो विवरण दे
-
-

मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही कोई असत्य, भ्रामक जानकारी दी है।

दिनांक:

भवदीय

नाम:

पिता/पति का नाम:

पता:

दूरभाष, मोबाईल नं.